IndiaMART InterMESH Ltd.



6th floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No.22, Sec 135, Noida-201305, U.P. Call Us: +91 - 9696969696 E: customercare@indiamart.com Website: www.indiamart.com

August 22, 2022

To,

BSE Limited (BSE: 542726) National Stock Exchange of India Limited

(NSE: INDIAMART)

Sub: Publication of information regarding 23rd Annual General Meeting of the Company

Dear Sir / Ma'am,

We wish to inform you that the 23rd Annual General Meeting ('AGM') of IndiaMART InterMESH Limited ('Company') is scheduled to be held on Tuesday, September 20, 2022 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").

The Notice of the AGM of the Company and the Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent in due course only in electronic mode to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent/ Depository Participants. These documents would also be available the Company's on website at https://investor.indiamart.com/.

Pursuant to Regulation 30, 47 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published today i.e., August 22, 2022, in Mint (English Language National Daily Newspaper - All India) and Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper - Delhi), intimating the Members of the Company regarding the AGM.

The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at https://investor.indiamart.com/CorporateAnnouncements.aspx.

Please take above information on record.

Yours faithfully,

For IndiaMART InterMESH Limited

(Manoj Bhargava)

Group General Counsel,

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No: F5164

Encl: As above





companies to turn forts into hotels

Varuni Khosla varuni.khosla@livemint.com **NEW DELHI**

n the large hilltop of Bangira lies a fort that served as a stronghold of the Chandela Kings in Balwant Nagar between the 11th and 17th centuries. To many of us, it is better known to us as the Jhansi Fort, synonymous with Rani Lakshmi Bai, the queen who single handedly fought off British troops during the freedom struggle. Very soon, vou may be able to stay in a part of this sprawling 17 acre fort.

If all goes according to plan, this fort and 30 others in Uttar Pradesh, which have been made available for 'adaptive reuse' by the state's tourism board, can be restored and developed into swank hotels. The tourism board has engaged CEPT University in Ahmedabad and private consultants to help evaluate the locations and facilitate investment. It will prepare a conceptual plan, carry out situational analysis, identify key tourism development initiatives, prepare a capital investment plan, and an institutional framework for implementation.

The other forts include Talbehat fort in Lalitpur, the Baruasagar fort in Jhansi, Chattar Manzil in Lucknow, and Chunar fort in Mirzapur. This will be a bid replicate the Rajasthan tourism model, where the old forts have been turned into hotels. A majority of the forts, such as the famous fort of Jhansi, are owned by the Archaeological Survey of India.

UP to allow 'Inflation has little effect on Indian festive season sales'

shuchi.b@livemint.com

NEW DELHI

itchen appliances and cookware brand Wonderchef, co-founded by Ravi Saxena (former head of Sodexo India) and chef Sanjeev Kapoor, has entered two new categories: Coffee machines and appliance renting. The 13-year-old company, which has Amicus Capital, Sixth Sense Ventures and Godrej family office as investors, is eyeing rapid expansion. In an interview, Saxena spoke of India's growing coffee culture and a robust upcoming festival season. Edited excerpts:

You raised money from Sixth Sense last year. Will you raise more

We are expanding fast, So, sometime next year, we may go for fundraising again. Last year, we grew by 30%, and this year we're growing by almost 40%. Naturally, working capital is required



for such high growth. Plus, we are investing a lot in design and development. For example, we have launched a full stack of nine coffee machines because coffee is happening in India.

We're designing the machines because 92% of Indians have coffee with milk, unlike in the West, where most people have black coffeeespresso shots and americano. Here, we have to design milk-heavy machines with inbuilt frothing.

So, starting from a simple machine which costs about ₹1,500, we have the fully automatic machine which gives you a full cappuccino, including frothed milk. That's priced at ₹90,000 and will be launched around Diwali.



We're investing a lot in

design and

development. For

example, we have

launched a full stack of

nine coffee machines

Ravi Saxena

MD & co-founder, Wonderchef

Others that cost between ₹14,000 and ₹17,000 can give you Starbucks kind of coffee at home.

So, passion for coffee is on the rise. It's already happening. I went to

a mid-sized mall in Mumbai recently and found 11 coffee outlets, each one selling a coffee cup at ₹350 to ₹450 and each one having customers. The outlets are differentiated. Some are like Starbucks and Café Coffee Day, where you sit and have a nice experience.

Others are just coffee carts in the

How much of your business do you see coming from coffee machines going forward?

Maybe 8-10% in two years. Consistently, every single day, ₹16,000 machines sell more than the 10.000ones, and the ₹10,000 ones beat those priced at ₹6,000. So, the pyramid is

> inverted. You have also launched a business to give appliances on rent. Yes, it's called Won-

deRent. It started with coffee machines, but customers can rent any of our appliances priced more than ₹3,000. Our target audience for this is the

millennials who want good things in life instantly. But they do not want to own houses or durables and appliances. They prefer to rent and may want to upgrade soon. I see this business

indiamart

CIN: L74899DL1999PLC101534 Regd. Office: 1st Floor, 29 - Daryaganj, Netaji Subhash Marg, New Delhi- 110002

Corp. Office: 6th Floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22,

Sector-135, Noida- 201305, U.P.

Website: www.indiamart.com; Email: cs@indiamart.com; Ph. No: 011-45608941

NOTICE OF THE 23RD ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the Twenty Third (23rd) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of IndiaMART InterMESH Limited ('Company') will be held on Tuesday, September 20, 2022 at 11.00 a.m. IST, through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Video Means ('OAVM') facility, without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Circular No.

02/2022 dated May 05, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars' and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020.

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), to transact the

In compliance with the said Circulars, the Notice of the AGM along with the Annua

Report for FY 2021-22 ('Annual Report') will be sent in due course only through

electronic mode to those Members whose email ids are registered with the

Company/ Registrar and Transfer agent ('RTA') and Depository Participants ('DP')

The Notice of the AGM and Annual Report will also be made available on the

Company's website at http://investor.indiamart.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of

India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities

The Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions set forth in the Notice and proposed to be transacted at the AGM by electronic

The Members who had already casted their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to

cast their vote again at the AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting. e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is

Members may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at the

AGM as provided in the Notice of the AGM. Members may send a request to

evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-Voting by providing

Members may also note that the Board of Directors of the Company in their meeting held on April 28, 2022, recommended Final Dividend of Rs. 2/- per equity share of

face value of Rs. 10/- each for FY 2021-22 subject to the approval of Members in the

ensuing AGM. The Final Dividend, if approved by the Members, will be paid to those Member(s)/their mandate(s) whose name is recorded in the Register of Member(s).

Beneficial Owner(s) maintained by the depositories as on Friday. September 2, 2022.

process advised by your respective DP

In case members who have not registered/updated their email address for receiving Annual Reports and other communications through electronic mode and/or not register/update their bank account mandate and KYC for receipt of dividend, please

Register/update the details in your demat account, as per the

Register/update the details in prescribed Form ISR-1 along with

other relevant documents/ forms as referred in SEBI Circular no

SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655_dated

November 3, 2021 and submit the same to Link Intime India

Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the

Company at Noble Heights, 1st Floor, Plot No NH-2, C-1 Block,

LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058, Tel

011 - 49411000, e-mail: delhi@linkintime.co.in or to the Company.

The relevant forms are available on the Company's Website at

For IndiaMART InterMESH Limited

https://investor.indiamart.com/InvestorForms.aspx.

In terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, ('IT Act'), dividend income will be

taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at

source at the prescribed rate from the dividend paid. The deduction of tax at source will

be based on the residential status and classification of Members, documents submitted

and accepted by the Company. The Members are therefore, requested to upload

requisite tax related documents/declarations to the Company through the link

https://indiamart.com/submissionoftaxdocuments on or before Thursday, September

15, 2022 to enable the Company to determine the appropriate withholding tax rate

For further details, please refer to FAQ's on Taxation of Dividend Distribution available

on the Company's Website at https://investor.indiamart.com/CorporateActions.aspx.

businesses as set out in the Notice of the AGM.

Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

being provided in the Notice of the AGM.

ollow the following instructions:

Physical Holdin

documents as mentioned in the Notice of the AGM.

means. The facility of casting votes will be provided by NSDL

INDIAMART INTERMESH LIMITED

increasing. We are using a third-party firm which has developed the system for us. You can go to our site, and instead of Buy Now button, you press Rent Now. Everything from reaching the product to the consumer and collecting rent is done by the third-party

What is your sense of demand for the festival season?

It has started well. One had feared that because of various inflationary pressures and other global uncertainties, there might be a problem. But I think India's festival season is pretty much agnostic to all these pressures. I see a strong season building up.

Won't higher prices impact demand?

In the last year, we took three price hikes as shipping costs and commodity costs went berserk. Since January 2021, the total percentage hike taken is $20\mbox{-}25\%$. But despite that, we grew 30% . How much digital media do you use to advertise?

We are about 10 times bigger in our social media assets than any other brand in our industry. We have almost 2 million followers on Facebook, Instagram, Pinterest and YouTube and do a lot of content-based marketing. We advertise on Google, Facebook, Amazon, and Flipkart marketing

What about television?

We have a campaign, but I don't think we have been able to use it efficiently because TV requires huge budgets. In my opinion, for TV, if you don't have ₹50 crore to spend, don't do it. You will not even cut the clutter.



Scan the code to watch Mint's **Brand Talk** interviews.

Third Eye Distillery takes controlling stake in Svami

varuni.khosla@livemint.com NEW DELHI

hird Eye Distillery Holdings, the makers of Indian gin Stranger & Sons, has acquired a controlling stake in craft tonics and mixers brand Svami, owned by Foxtrot Beverages Private Limited. Third Eye co-founder Vidur Gupta said the acquisition has been done at a valuation of ₹100 crore and the company has taken 51% stake in the firm.

Founded by Rahul Mehra, Sakshi Saigal and Vidur Gupta in Goa in 2018. Third Eve has expanded to major metros across Maharashtra, Delhi, Karnataka, Pondicherry and Rajasthan as more Indians, especially millennials, take to

drinking gin. Internationally, Stranger & Sons has a global footprint in the UK, Singapore, Thailand, Taiwan, Mauritius, New Zealand, Italy, the

US and UAE. Third Eye Distillery is an equity

funded company and the Svami acquisition is being funded from its existing capital within the business which has been earmarked for strategic opportunities.

"Our vision was always to be a premium house of brands that has come out of India, some thing like a Diageo or a Pernod Ricard. We have decided we want to be in the non-alcoholic segment and also to bring plan-



Aneesh Bhasin, co-founder, Foxtrot Beverages, with Vidur Gupta, co-founder, Third Eye.

tation rum into India. The nonalcoholic adult beverage market space was exciting for us and Svami was the market leader," he said.

Aneesh Bhasin, co-founder of Svami said, "Eventually, Third Eye wants to be a house of brands and

India so far has The founders will not had a 'concontinue to run temporary' house the company but the investment will help drive the business objectives

of brands. We are excited that it is happening now.' The founders will continue to run the company but the investment will help drive the

business objectives. Set up in 2015, Svami products are available in general trade in major metros and cities. In modern trade they are present at Nature's basket, Food Hall and 24x7, among others. The company also exports to Hong Kong, Singapore, Maldives and Mauritius. Last year, LVMHowned Moët Hennessy tied up with Svami to create limited edition drink mixers.



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in



AUCTION OF STATE GOVERNMENT SECURITIES

Sr. No.	State	Amount to be raised (₹cr)	Additional borrowing (Greenshoe) option (₹cr)	Tenure (in years)	Type of auction
1.	Assam	800	-	10	Yield based
2.	Kerala	1,000	-	16	Yield based
		500	-	20	Yield based
3.	Punjab	1,000	-	Reissue of 7.82% Punjab SDL 2042 issued on August 03, 2022	Price based
4.	Telangana	500	-	23	Yield based
4.		500	-	24	Yield based
5.	Uttar Pradesh	2,500	-	10	Yield based
	Total	6,800			

The auction will be conducted on Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) in multiple-price format on August 23, 2022 (Tuesday). Individua investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (https://rbiretaildirect.org.in). For further details please refer to RBI press release dated August 19, 2022 (Friday) on RBI website www.rbi.org.in

'Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money."





The following State Governments have offered to sell stock by way of auction, for a

Sr. No.	State	Amount to be raised (₹cr)	Additional borrowing (Greenshoe) option (₹cr)	Tenure (in years)	Type of auction
1.	Assam	800	-	10	Yield based
2.	Kerala	1,000	-	16	Yield based
		500	-	20	Yield based
3.	Punjab	1,000	-	Reissue of 7.82% Punjab SDL 2042 issued on August 03, 2022	Price based
	Telangana	500		23	Yield based
4.		500	-	24	Yield based
5.	Uttar Pradesh	2,500	-	10	Yield based
	Total	6,800			





Indian Bank

ALLAHABAD



🛕 इलाहाबाद Treasury Branch, 1st Floor, Allahabad Bank Building, Near by Bombay Stock Exchange, 37, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 023

INVITATION OF BID FOR SALE OF 20,00,000 (TWENTY LAKHS) EQUITY SHARES OF RELIANCE ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED BY SWISS CHALLENGE METHOD

Indian Bank, a Body Corporate constituted under the Banking companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1970 and having its Corporate Office at 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai 600014 Tamil Nadu and having branch at Indian Bank, Treasury Branch, Allahabad Bank Building, 1st Floor, 37 Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400 023 (hereinafter called "Shareholder Seller") intends to sell 20,00,000 (twenty lakhs) equity shares, constituting 2% of the total equity share capital of Reliance Asset Reconstruction Company Limited (hereinafter called "Proposed Transaction") by Swiss Challenge Method based on an existing offer of Rs. 9.00 (Rupees nine only) per share for a total amount of Rs.1,80,00,000.00 (Rupees One crore eighty lakhs only) referred to hereinafter as "Anchor Bid" in hand from a prospective buyer referred to hereinafter as "Anchor Bidder". The "Anchor Bidder" shall have the right to match the highest bid received under SEALED TENDER/BID.

In view of the above, Indian Bank Invites sealed tender/bid from interested investors for the 'Proposed Transaction' i.e. sale of 20,00,000 (twenty lakh) equity shares of Reliance Asset Reconstruction Company Limited under Swiss Challenge Method. The bid price will be above the "Anchor Bid" of Rs.9/- per share. Bid shall be accepted on i.e. price per share basis for the entire 20,00,000 (twenty lakh) equity shares above the Anchor Bid price along with all supporting documents at **Indian Bank**, **Treasury** Branch, Allahabad Bank Building, 1st Floor, 37 Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400023 on or before 1600 Hrs (IST) of 01.09.2022 or as extended from time to time. Interested parties may visit https://www.indianbank.in/departments /tenders/#! Auction page from time to time for further update, if any. The Bid terms & conditions and Qualification criteria are available at https://www.indianbank.in/departments/tenders/#! Auction page.

Further details of the Proposed Transaction and subsequent processes, will be notified to the qualifying potential investors, as shortlisted by the Seller. For clarifications, investor may contact to domestictreasury@indianbank.co.in. The sale is subject to confirmation by the Shareholder Seller. The Shareholder Seller Bank shall have absolute right to accept or reject the bid o adjourn/postpone the sale without assigning any reason thereof.

Place: Mumbai Date: 22.08.2022

Sd/for Indian Bank

Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

Manoj Bhargava Place: Noida Group General Cour Date : August 22, 2022 Company Secretary & Compliance Officer

DRIVING INDIA'S

company, Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. (GMDC), is undergoing remarkable growth and diversification. We are building capabilities, creating resilience and elevating our financial performance as we embrace transformational change. We are progressing to being positioned to mine, process and refine the Rare Earth Elements in the journey from Aatmanirbhar Gujarat to Aatmanirbhar Bharat.



RFP for Scoping Study/ Pre-economic Assessment for setting up a Rare Earth processing plant for deposits at Ambadungar, Gujarat (No. GMDC/PPD/002/2022)

RFP Document downloading Start Date 22/08/22 @11:00 Hrs. IST

Pre-Bid Conference 14/09/22 @12:00 Hrs. IST

Bid Submission Due Date 28/09/22 @15:00 Hrs. IST **Date of Opening Documents**

30/09/22 @12:00 Hrs. IST



Gujarat Mineral Development Corporation Ltd.

(A Government of Gujarat Enterprise)

Khanij Bhavan, 132 Feet Ring Road, Near University Ground, Vastrapur, Ahmedabad - 380 052.

Mint Top of the Morning Newsletter

- The top business, economic and political news of the day
- Delivered to your inbox every morning





To subscribe, scan this code or login: livemint.com/newsletters

देश गाउ

T

डोन को तीनों सेनाओं के लिए खरीद

जा रहा है। ये ड्रोन समुद्री सतर्कता, पनडुब्बी रोधी आयुध, क्षितिज के परे लक्ष्य साधने समेत विभिन्न कार्य करने

में सक्षम हैं। एमक्य-9बी डोन एमक्य-

जाता है कि एमक्यू-9 'रीपर' का इस्तेमाल हेलफायर मिसाइल के उस संशोधित संस्करण को दागने के लिए किया गया था जिसने पिछले महीने

ानुरा न जारा न्यायचा सर्वाना जनमान ल-जवाहिरी को मार गिराया था। सहयोग करने को तैयारः रक्षा

प्रतिष्ठान के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रक्षा क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित ड्रोन की नयी दिल्ली और वाश्गिंगटन के बीच

सरकारी स्तर पर खरीद के लिए बातचीत

चल रही है। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल

कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी डॉ

पुलिसकर्मी सिर्फ मंदिर व्यवस्था को देखेंगे : एसएसपी अभिषेक यादव

ने बताया कि ठा. बांकेबिहारी मंदि

एवं आसपास की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को अब अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, बल्कि वे सिर्फ शिफ्ट के हिसाब से मंदिर में आने वाले

श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने एवं उनकी सुरक्षा का ही काम करेंगे, ताकि किसी भी रूप में गत दिन हुए

एवं उनका सुरक्षा का हा काम करन, ताकि किसी भी रूप में गत दिन हुए हादसे की पुनरावृत्ति न हो सके। उन्होंने निर्देशित किया कि बिना आई कार्ड

9 'रीपर' का एक प्रकार है। ऐसा बत

जैविक हमलों से बचाएंगी प्रिडेटर ड्रोन खरीदने के डीआरडीओ की तकनीकें

परमाणु और रासायनिक हमलों के महेनजर कारगर साबित होंगी

उत्साहजनक

🔳 मदन जैडा

नर्द दिल्ली। कोरोना महामारी के बाद नुइ। दिल्ला । काराना महानारा क बाद जैविक और रासायनिक हमलों की आशंका में बढ़ोतरी हुई है। जबकि परमाणु हमले के खतरों एवं दुष्प्रभावों से दिनया पहले से वाकिफ है। इन सभी सद्भानवा परुषा च जानना स्तर् खतरों से निपटने के लिए रक्ष अनसंधान एवं विकास संगठन अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) लंबे समय से शोध कर रहा है। अब तक उसने 10 ऐर्स तकनीकें विकसित कर ली हैं जे परमाणु, जैविक एवं रासायनिक खतरे से सैनिकों एवं नागरिकों को बचाने मे कारगर साबित हो सकती हैं। पांच अहम तकनीकों पर शोध भी चल रहा है।

तकनाका पर शाध मा चल रहा है। डीआरडीओ के सूत्रों के अनुसार, जो तकनीकें विकसित की गई है, उनमें एनबीसी पर्मीबल स्यूट मार्क-5 प्रमुख है। इस स्यूट को पहनने से परम जैविक एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैविक एवं रासावनिक प्रतिक्रियाओं से बचाव होता है। यह जवानों के लिए उपयुवत है। दूसरा एनबीसी रेस्परेटर मार्क- 2 है जो हमले की स्थिति में सांस लेने में मददगार होता है। तीसरा रासायनिक तत्वों का पता लगाने वाला उपकरण है। चौथा, असंक्रमित करने

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। मथुरा के बांके विहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर देर रात हुए हादसे की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश

पर एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की

गई है। प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह इस दो सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी से 15 दिनों के अंदर अपनी

ारपाट दन का कहा गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को देर रात कमेटी के गठन से संबंधित कार्यालय आदेश जारी किया। कमेटी में अलीगढ़

के मंडलायुक्त गौरव दयाल को सदस्य

बनाया गया है। कमेटी को आवश्यक

रिपोर्ट देने को कहा गया है।

हमले के पीडितों को बचाने के लिए दो अस्पताल बनेंगे केंद्र सरकार ने रासायनिक, जैविव



रेडियोलॉजिकल और परमाणु घटनाओं या हमलों की जद में आने वाले लोगों के इलाज का इंतजाम करने जा रही है। इसके लिए पहली बार दो केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है। पहल स्थापित करने का फसता लिया गया है। पहली केंद्र तमितनाडु के चेन्नई स्थित स्टेननी मेडिकन कॉलेज में जबकि दूसरा एम्स के झज्जर परिस्स में स्थापित किया जाएगा। दुनियामर में बढ़ रहे जैविक और रासायनिक खतरों को देखते हुए इस तैयारी को बेहद अहम माना जा रहा है।

आपदा में काम आएंगे

इस प्रस्ताव का उद्देश्य भोपाल गैस त्रासदी, विशाखापत्तनम एचपीसीएल रिफाइनरी विस्फोट और अन्य रिफोइनरा विस्कृति आर अन्य औद्योगिक दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संकट से निपटना होगा। एचएलएर इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड ने स्वास्थ्य ड्रांग टेक सोवेंसजे लिमेटेड ने स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे संबद्ध संगठनों के विशेषज्ञों के परामर्श से यह परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

वाला सिस्टम है। इसी प्रकार एक ऐसा एनबीसी मोबाइल शेल्टर बनाया गया है जिसमें लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें परमाणु, जैविक एवं रासायनिक हमला बेअसर रहता है।

को सौंपेगी समिति

पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह बने कमेटी अध्यक्ष

उल्लेखनीय है कि मथुरा में वृंदावन श्रत बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे

के वक्त डीएम व एसएसपी समेत सभी क वक्त डाएम व एसएसग समत सभा बड़े अधिकारी मौजूद थे। ब्रह्मलुओं की भारी भीड़ एकत्र होने के कारण मंदिर में अचानक अव्यवस्था फैल गई थी, जिससे दम घुटने के कारण दो ब्रह्मलुओं की मौत हो गई थी। इस दौरान

कई अन्य लोगों की भी हालत बिगड़

डेढ़ साल में स्थापित होंगे

अधिकारियों के मुताबिक, ये दोनों प्रतिष्ठान 230 करोड़ रुपये की नेत लागत से डेढ साल मे पेत किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में 50 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। इसके कराए जाने की योजना है। इसके अलावा, सरकार गुजरात, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और यूपी में सात द्वितीयक स्तर के सीबीआरएन चिकित्सा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है।

डीआरडीओ के अनुसार, एक ऐसा बाहन तैयार किया गया है जो परमाणु, जैविक एवं रासायनिक हमलों की निगरानीमें समक्ष है। इसी प्रकार 'फर्स्ट एड किट' भी तैयार की ग

वृंदावन, हिन्दुस्तान संवाद। बांकेबिहारी मंदिर में मंगला आरती के

दौरान हुए हादसे के बाद जिला एवं

पुालस प्रशासन भक्ता का सुावधा एव सुरक्षा के प्रति बेहद गंभीर दिख रहा है। अब बिहारी जी मंदिर का फोर्स कहीं और नहीं लगाया जाएगा। वो केवल

रविवार गहनता से अवलोकन किया।

मंदिर का काम ही देखेगा। भादर का काम हा दखना। डीएम नवनीत सिंह चहल एवं एसएसपी अभिषेक यादव ने मंदिर परिसर एवं आसपास चप्पे-चप्पे का

।।सन भक्तों की सविधा एवं

नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत कर रही है। इन दो ड्रोन के बारे में (एलएसी) और हिंद महासागर के पास सतर्कता बढ़ाने के लिए सरकार सतकता बढ़ान क ालए सरकार अमेरिका से '30 एमक्यू-9बी ग्रीडेटर' सशस्त्र ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही। तीन अरब डॉलर से अधिक की लागत वाले इस समझौते के लिए वार्ता अंतिम चरण में हैं। इससे जुड़े पछे जाने पर लाल ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने भारतीय नौसेना की समुद्री एवं जमीनी सीमा पर गश्त के लिए करीब 3,000 घंटे उड़ान भरी। भारत एमक्य–9 के प्रदर्शन से प्रभावित है। अधिकारियों ने रविवार को इसकी गानकारी दी। इसी ड्रोन से मारा गया था जवाहिरी: नंबे समय तक हवा में रहने वाले इन

लिए वार्ता आखिरी चरण में

35 घंटे उडने में सक्षम अन्य उज्जेण न प्रदान भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन की खरीद के लिए प्रस्ताव किया था और तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलने की सभावना है। अभेरिकी एक्षा कंपनी जनरल एटोमिक्स खारा निर्मित रिमोट- संचालित ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम हैं। के बीच खरीदारी कार्यक्रम पर बातचीत

अंतिम चरण में है। इन वार्ताओं संबंध कोर्ड भी प्रश्न संबंधित सरकारों से पछा लागत, हथियारों पर उलझी बातचीत : सूत्रों ने बताया कि बातचीत ड्रोन की

उसमें इस्तेमाल होने वाले रितानत, उसमें इस्तेनाल होने पाल हथियारों के पैकेज और प्रौद्योगिकी को साझा करने से संबंधित कुछ मुद्दों को सुलझाने पर केंद्रित है। ऐसा समझा जाता है कि अप्रैल में वाशिंगटन में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई टू प्लस टू विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तर की वार्ता के दौरान भी बांके बिहारी मंदिर में हादसे की जांच को कमेटी गटित वृंदावनपहुंचे मथुराके डीएम

वीडियो वायरल

वृंदावन (मथुरा), हिसं। वृंदावन में

वृद्धावन (मबुरा), हिसा युद्धावन म बंदरों की धमाचौकड़ी से आम आदमी ही नहीं अफसर भी परेशान हैं। इस बार आम् आदमी नहीं बल्कि जिले का

जापना नहीं जाएक जिएन कि सबसे बड़ा अधिकारी हो गया। अफसरों और पुलिसकिमियों के बीच से बंदर चश्मा लेकर भाग निकला। काफी मशक्कत के बाद बंदर से चश्मा

वापस लिया जा सका। इसका वीडियो

भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

समाजकोजागतकर रहा संघ: भागवत

नई दिल्ली, एजेंसी। सरसंघ मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) राष्ट्राव स्ववसंवक सर्व (आरएसएस) समाज को जागृत और एकीकृत करने का काम कर रहा है तांकि भारत संपूर्ण विश्व के लिए एक 'आदर्श समाज' के रूप में उभर सके। . . . उन्हर सन्ता भागवत ने कहा कि लोगों को समाज

की सेवा के लिए सामुदायिक भाव के साथ आगे आना चाहिए, व्यक्तिगतरू से नहीं। आरएसएस की दिल्ली इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत क्षरा आधाजत एक कायक्रम में भागपत ने कहा, भारतीयों का डीएनए और बुनियादी स्वभाव है कि वे समाज के रूप में सोचते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं।

वैष्णो देवी यात्रा को आरएफआईडी शुरू

जम्मू, एजेंसी।जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए परीक्षण के आधार पर रेडियो फीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड पर राड्या फ्राक्यसा आइडाटटा काड (आरएफआईडी) की व्यवस्था शुरू की गई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।इससे श्रद्धालुओं पर नजर रखी जाएगी। आपातस्थिति में

नजर रखा जाएगा। आपतास्थात म जरूरी कदम उठाया जा सकेगा। रेडियो-आवृत्ति पहचान प्रणाली वायरलेस तकनीक पर आधारित है, जिसपर रेडियो तरंगों के माध्यम से नज रखी जा सकती है। टैग पर एन्क्रिप्टेड जानकारी, सीरियल नंबर एवं संक्षिप्त विवरण हैं।

नहीं दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहर संभवार को भोधात में मध्य क्षेत्रीय परिष्ठ की केंद्रक की अध्यक्षता करने। जहां कर्नीक्टिवेटी, बिजली, नहीं जल के बहुदारों और साझा हितों के अन्य मूर्त पर वह किंद्री मध्य क्षेत्रीय साथ केंद्रवारों और साझा हितों के अन्य मूर्त पर वह किंद्री मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य अधिवारीय परिषद में मध्य अधिवारीय केंद्र करने एक अधिवारी में ने कहां कि बेदक में मध्यमित्रीय, मीत्रिया, मध्य सविवोत्रीर केंद्र सरकार के विरस्त अधिवारी मध्यमित्रीय, अधिकारी ने कहां कि परिषद की बेदक में मध्यमित्रीय, अधिकारी ने कहां कि परिषद की बेदक में कर्नीवेटविटी, बिजली और साझा हितों के अन्य मुद्धों पर चर्चा होगी।

्याण उत्सव को लेकर मुंबई में दीवारिया जीते पर है। इस वर्ष गणेश चतुर्यों 3 असरत को मनाई जागी। मुंबई में दीवार को पंजात में स्थापित करने के लिए भगवान गणेश की मृति ते जाते श्रद्धालु। • 92

शाह आज बैटक की अध्यक्षता करेंगे

जदय की कार्यकारिणी बैठक 3-4 सितंबर को नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक क्रमशः ३ और ४ सितंबर को पटना में होगी। पार्टी महासचिव अफाक अहमद खान ने कहा कि दोनों दिन संगठन संबंधी मुद्दों और सदस्यता अभियान पर चर्चा की जाएगी। यह बैठकें इसलिए अहम मानी जा रही हैं,

जनपान पर पंचा जारेगा यह बच्छ इसारा अरून नाना जा रहा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री एवं जहां द्या ग्रुमुख नीतीश कुमार ने हाल ही में भाजपा से गठबंघन तोड़ते हुए महागठबंघन से हाथ मिला लिया था, जिसमें राजद, कांग्रेस और वामदल शामिल हैं। आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सली की हत्या

बीजापुर (इम्बीसगढ़)) इसीसगढ़ के बीजापुर (जिसे में एक पूर्व नवस्ती की उसके पूर्व सहकर्मियों ने किंवत तौर पर हत्या कर थी। उसने तीन महीन घड़ने ही पुलिस के समझ आत्मसमार्थन किया था। पुलिस के एक वरिषठ अधिकारी ने रिवीयर को बाताया कि रुपीय के पीय का प्रोप्त मान पोयमा आता सुक्त के समाद पुलि बाना क्षेत्र के अंतर्मत पोंडुम गांव के पास सड़क के किनारे मृत हालत में मिला।

58 नए विधिक अधिकारी पद आरक्षित

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भागंदा मान ने महाविद्यतता (एउडीकट जनस्त) कार्यात्व में 95 लए विशेषक अधिकारियों के एड अनुवृत्तित जाति (एससी) के विध्यवताओं के दिखा आसित किए जाने विशेषार को घोषणा की उन्होंने कहा कि इन पढ़ी को आने वाले हिनों में पना जाएगा। मान ने कहा, 'जब मैंने मुख्यमंत्री पढ़ की पहल जी और में वाले किलारियों से पूछा कि क्या महाविद्यता कार्योत्त्व में आस्त्राण का कोई प्रावधान है, तो उन्होंने मा में जवाब दिया था।'

विभाजन पर आधारित संग्रहालय कोलकाता में

कोलकाता। कोलकाता में अगले सप्ताह तक देश के विभाजन पर आधारित एक डिजिटल संग्रहालय की शुरुआत होगी। इस संग्रहालय में भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच के गहरे संबंधों को दर्शाने वाली कला और साहित्य जगत की कृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में प्रदर्शित की जाने वाली कृतिय कियानन की नामी और उसके किया जाएगा। र्विभाजन की त्रासदी और उसके परिणामस्वरूप सीमा के दोनों ओर लोगों को हुई परेशानियों और उनकी पीड़ा को भी दर्शाएंगी।

गई थी, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला था। लालू किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाएंगे

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राजद सुप्रीमो पटना, हन्दुस्तान ब्यूना राजद सुप्रामा लालू प्रसाद किड नी ट्रांसप्लांट के लिए जल्द सिंगापुर जाएंगे। लालू परिवार में इस बात पर सहमति बन गई है। हालांकि लालू प्रसाद कुछ माह पहले ही सिंगापुर जाने वाले थे, लेकिन पटना में पूर्व मुख्यमंत्री रावड़ी देवी के 10 सर्कुल रोड आवास की सीढ़ियों से गिरने के कारण घायल होने के बाद उनका

कारण धायल होन क बाद उनका सिंगापुर जाना टल गया था। उन्हें एयर एंबुलेंस से दिल्ली के एम्स ले जाया गया था। वे कई दिनों तक वहां भर्ती रहे। उपचार के बाद लालू दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सरकारी आवास पर रह कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। पिछले दिनों बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लालू यादव इसी हफ्ते पटना लौटे हैं। लौटने पर उनके



चर्चा शुरू हुई। पारिवारिक ाकर स चर्चा शुरू हुई। पारिवारिक सदस्यों ने इस मुद्दे पर डॉक्टरों से सलाह भी ली। डॉक्टरों ने उन्हें सिंगापुर ले जाने की सलाह दी है। ऐसे में अब वे शीघ्र ही वहां जाने की तैयारी में हैं। दरअसल, लालू प्रसाद कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उनकी किड़नी और फेफड़े में गंभीर संक्रमण है। उनकी दोनों किंडनी 75 प्रतिशत से ज्यादा डैमेज हो चुकी है। वह मधुमेह और उच्च

इसके तहत मंदिर परिसर एवं बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ दबाव कम करने की रणनीति तैयार की। आजमखां के अधिवक्ता ने गवाह को धमकाया, केस

मंदिर पर तैनात फोर्स कहीं नहीं जाएगी

क आजम खां के बाद अब उनके अधिवक्ता नासिर सुल्तान तथा तीन अन्य लोगों के खिलाफ ड्रंगरपुर प्रकरण में दर्ज मुकदमे के के भाई को धमकाने और गाली-गलीच करने के आरोप मे मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने धमकाने का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सपा के शहर विधायक आजम

संपा के शहर विधायक आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण के शिकायकर्ता को धमकाने का आरोप लगाया गया था। अब आजम के करीबी अधिवक्ता पर भी धमकाने का आरोप लगा है। अजीमनगर तहरीर देकर आरोप लगाया कि

डूंगरपुर मामले में गवाही को आए भाई के साथ कोर्ट पहुंचा था पीड़ित

वकील के साथ ही तीन अन्य पर भी लगाया गालीगलौज का आरोप

उनके भाई अबरार हुसैन डूंगरपुर मामले में वादी है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसमें उनके भाई की गवाही चल रही है। आरोप है कि 18 अगस्त को वह अपने भाई के साथ कोर्ट आया था। इस बीच एमपी-एमएलए कोर्ट के सामने गैलरी में अधिवक्ता नासिर सुलतान और उनके साथ तीन अन्य लोग आए और गाली-गलौज करने लगे।





वृंदावन पहुंचे डीएम का चश्मा लेकर ऊपर बैटा बंदर। • वीडियो वैब

मीडिया पर एक वीडियो वायरल

हो रहा है. जिसमें एक बंदर मथर

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की नीलामी

का चश्मा लेकर भागा बंदर

नालिखित राज्य संस्कार ने कुल ₹6,800 **करोड़** (अंनि ध्यम से प्रतिमृतियों की बिक्री करने का प्रस्ताव किया है। अतिरिक्त कार्

露.	राज्य	(रकरोड़)	अशदान विकल्प (रकरोड)	(वर्षों में)	प्रकार
1.	असम	800		10	प्रतिफल आधारित
2.	केरल	1,000	- 8	16	प्रतिफल आधारित
3.	पंजाब	500	8	20	प्रतिकल आधारित
		1,000		03 अगस्त 2022 को जारी 7.82% पंजाब एसडीएल 2042 का पुनर्निर्गम	मूल्य आधारित
4	तेलंगाना	500	81	23	प्रतिफल आधारित
4.	denini	500 -	24	प्रतिफल आधारित	
5.	उत्तर प्रदेश	2,500	**	10	प्रतिफल आधारित
	कुल	6,800			

यह नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) पर एकाधिक मूल्य पद्धति 23 अगस्त 2022 (मंगलवार) को आयोजित की जाएगी। व्यक्तिगत निवेशक भी रिटेल डायरेक 20 जगर 2022 (नगरमा) के जात्रकार से मेरातिस्पर्धी योजना के अनुसार बोली लगा गोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के मार्ट्यम से मैरातिस्पर्धी योजना के अनुसार बोली लग सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया मारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट <u>www.rbi.org.in</u> पर 19 अगस्त 2022 (शुक्रवार) की प्रेस प्रकाशनी देखें।

"पैसे का वादा करने वाले ई-मेल/एसएमएस/टेलीफोन द्वारा धोखा न खाएं"

बिहारमें भ्रष्टाचारका नया मॉडल विकसित हो रहाः रविशंकर

चानन (लखीसराय), निज संवाददाता। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार का नया मॉडल विकसित हो रहा है। अब तो सरकारी बैठक में भी जीजा और निजी सलाहकार भाग ले रहे हैं। वे रविवार को लखीसराय के चानन

प्रखंड अंतर्गत मलिया गांव में भाजपा त्रेष अपेपा मारोवा गांच ने मारोवा की प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा के ससुर सिंहेश्वर महतो के श्राद्धकर्म में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार में मंत्री कोई है और परिवार के सदस्य बैठकर सरकार चला रहे हैं।

संसदीय समिति के सामने पेश होंगे कंपनी प्रतिनिध नई दिल्ली, एजेंसी। ऐपल, गगल,

अमेजन, नेटिपलक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों की भारतीय इकाइयों के प्रमुख डिजिटल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों की जांच त्रतास्थवा रावा पातापावया का जाय कर रही संसदीय समिति के समक्ष मंगलवार को गवाही देंगे। संसद की वित्त मामलों पर गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष ज्यंत सिन्हा ने रविवार को जनजार की संसदीय समिति बाजार में प्रतिस्पर्धा के विभिन्न पहलुओं को टेन्ट —^ र्र

के विभिन्न पहलुओं को देख रही है जिसमें बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मंगलवार को होने वाली इस बैठक का एजेंडा बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिस्पध रोधी तरीकों पर कंपनियों के प्रतिनिध की मौखिक गवाही लेना है।

सिन्हा ने बताया कि ऐपल माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, नेटफ्लिक्स की भारतीय इकाइयों के प्रतिनिधि और कुछ अन्य लोग डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धी व्यवहार के मुद्दे पर संसदीय समिति के समक्ष पेश होंगे। समिति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय कंपनियों से इस मुद्दे पर पहले ही विमर्श कर चुकी है।

खालिस्तानी नेटवर्क का खात्मा होगा केंद्रीय गह मंत्रालय के

निर्देश के बाद एटीएस ने बढाई सकियता नेटवर्क से जुड़े मामलों में

कार्रवाई एनआईए के

स्तर से की जाएगी


लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी में खालिस्तानी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए एटीएस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 'अईएसआई' का मदद से एक बार फिर पांव पसार रहे खालिस्तान आंदोलन पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयार्र शुरू हो गई है। पूर्व में इस आंदोलन से प्रभावित रहे जिलों में संदिग्धों की प्रभावित रह जिला म सादग्धा का निगरानी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर के अलावा चार राज्यों

पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड को खालिस्तानी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार यह फैसला खालिस्तानी नेटवर्क और आईएसआई के गठजोड के बारे में मिले खुफिया इनपुट के आधार पर लिया गया है। देश की सभी प्रमुख जांच एजेंसियों को इस नेटवर्क के बारे में सूचनाओं

का राज्यों के साथ आदान-प्रदान करने और राज्यों को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया गया है।इस नेटवर्क से जुड़े मामलों में कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेसी (एनआईए) के स्तर से की जाएगी। राज्यों का आतंकवाद निरोधक दस्ता एनआईए के साथ समन्वय स्थापित करके अपने स्तर से प्रारंभिक कार्रवाई

NIT No. 19/CMF/PMC/2022





SL .N o.	Name of Work	(Non-Refundable) (Paid Through www.eproc2.bihar.gov. in)	(Paid Through www.eproc2.bihar.gov. in)	
1	Request for Proposal for selection of agency for supply of 150 nos hand held walky talky with 3 years comprehensive maintenance to Patna Municipal Corporation.	Rs. 10000.00	Rs.100000	

In case of Bank Guarantee, EMD shall be payable in favour of "Municipal Commissioner, Patna Municipa I Corporation" vable at Patna

Key Dates:

Start of online bid/downloading of bid documents Pre-bid Meeting Last date of Online Bid Submission

: From 22.08.2022 (10:00 Hrs.) : 26.08.2022 at 16:00 Hrs.(As per RFP) : 30.08.2022 till 16:00 Hrs. : 31.08.2022 at 16:00 Hrs

terminat not uponing uses in the referred from the selected through a single-stage two-part competitive bidding process based on evaluation of technical and Financial proposal. The bidders are expected to submit their proposal in accordance with the instruction provided in the FED Peallard Reports for Proposal (RPF) introporating instructions or short bidders are submission of bidd and other relevant information's will be available on www.greet_bidter.govin and www.gree_bidter.govin from bid surt date. The sid quantity (of, 1900 ma) princrease or decrease.

Amendment Corrigendum to NIT, if any would be published on website www.greet_bidter.govin only.

Patna Municipal Corporation

Maurya Lok Complex

Technical Bid Opening date

Buddha Marg, Patna, Bihar, 800 001 W:www.pmc.bihar.gov.in

- 006802(NI.NI.) 2022-23

Chief Municipal Engineer नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है। Patna Municipal Corporation.

इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड

सीआईएम : 1.74890L1999PLC101544 पंजीकृत कार्यात्म : प्रथम तत् , क्र—पंजियागंत, नेताजी सुवास मार्ग, मई दिल्ली—10002 कार्योर कार्यात्म : छवा तत् , त्यर २. एसोटिक विकासे क्रेटेत, प्लीट नंबर 22. संजय- 135, मेणून—20150, उत्तर प्रदेश विवाह: www.indiamat.com; सै-गर्च - (ह्युलिविवामat.com; क्षेण मंग्यर 011-4500841 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

23वीं वार्षिक सामान्य बैठक को सुपाना पहसूतम सूनवा में की कि कमलो अधिकल, 2013 के माँ लग्न प्रावालों एवं तरवीन किरीमा निमाने कम की सुप्रीयन पारिक और इक्टीम्बन अक्रेसा) विनिध्यक्त है, 2015 के प्राथम परिक क्योरिन महामान्य प्राय को महामुं कर पर 1,700 कि प्रीताल के उपीर, 2020 सर्वृत्तिन संपत्त 1,700 कि मीकिंग 1 अभैत, 2020 सर्वृत्तिन संपत्त 20,700 कि मीकिंग 60 कर्से, 2020, सर्वृत्तिन संपत्त 2020 सिमीकिंग 1 अभैत, 2020 सर्वृत्तिन संपत्त 20,700 कि मीकिंग 60 कर्से, 2020, सर्वृत्तिन संपत्त 2021 सिमीकिंग 1 अमेल, 2020 स्थान क्यांत्र पर 12 स्थानी 61 कर्स मूं, 2022 (प्रियमीत सर्वाद्र पर) 2020 मिनीकिंग 60 कर्स, वेसी (परवर्त) नेपाएक्टी नेपाएक्टी नेपालक्षात पर्य (1020) मिनीकिंग 1 मां, 2020 स्थानी की एक्टाओं नेपाएक्टी नेपालक्षात पर्य (1020) मिनीकिंग 1 मां, 2020 राजा की एक्टाओं नेपालक्षात नेपालक्षात पर्याप्त (1020) मिनीकिंग 1 मां, 2020 राजा की एक्टाओं नेपालक्षात नेपालक्षात पर्याप्त (1020) मिनीकिंग 1 मां, 2020 कि स्थानिक 1 मां, 2021 का स्थान कि एक्टाओं नेपालक्षात में स्थानिकंग के स्थान स्थानिकंग स्थान स्थान स्थान स्थानिकंग स्थान स्थानिकंग स्थानिकंग स्थानिकंग स्थानिकंग स्थानिकंग स्थानिकंग स्थानिकंग स्थान स्थानिकंग स्थानिकंग स्थानिकंग स्थानिकंग स्थान स्थानिकंग स्थानिकंग स्थान स्थानिकंग स्था

अववा अन्य आधिको विज्ञुकल मीन्त (जोरपीएन) युविधा के माज्यन से, एवंदीएन की युवना में पूर्णिक व्यवसान के पुत्राचन हों आधिक जोरपी।

जनत सर्वृत्त्व के अपुणालन में, एवंदीएन की युवना वित्ताव की 2021-22 होचू वार्षिक रिसोट माज्यन के अपुणालन में, एवंदीएन की जाएगी।

जनत सर्वृत्त्व के अपुणालन में, एवंदीएन की युवना वित्ताव की 2021-22 होचू वार्षिक रिसोट माज्यन के अपुणालन में एवंदिक रिसोट माज्यन के प्रतिक होने के प्रतिक रिसोट माज्यन के प्रतिक होने के प्रतिक रिसोट माज्यन के प्रतिक रिसोट माज्यन के प्रतिक रिसोट माज्यन के प्रतिक कि युवने के प्रतिक के प्यूष्ट के प्रतिक के प्रतिक

nyoling@nds (o.i) पर अनुरोध में का सकते हैं। पारत्यमा यह भी में कर है कि समर्थी के निर्देशक मंद्रत ने हिनांक 20 और, 2022 के हैं समर्थी कि पार्सणी नैकक में वितरीय को 201—22 के हिए ओकित मुख्य कर 10/- के हुनिक्टी स्वर्ध पर कर 2/- प्रति हिम्बिटी सेवर का अधीत समान्य, आगानी परिवाप में सरदाने के प्रभूतीय-त की शर्व पर, संस्तुत किमा है। अधीत लागांत, यादी सरदायों हारा अनुमीदित किय प्राप्त सरदार (अप सरदार) प्रत्यं अविदेशीकोट्योटियोटियो के प्रति क्षा किया आगाना निर्देश प्राप्त सरदार (अप सरदार) प्रत्यं अविदेशीकोट्योटियोटियो के प्रति क्षा किया आगाना निर्देश प्रत्यं कर्मा के प्रत्यं के प्रतिकट्टियों के प्रत्यं कर्मा क्षा स्विच्या के प्रतिकट में सुक्रवाद (अर्थ केवार 2022 के, पर्देश में में प्रत्यं क्षा स्वच्या है आहे अप प्रति सरदारों में वार्षिक पिरोट्स की अप सुपत्या है उत्यं सुमाना है इकेहां मिक मोड से प्राप्त करने के लिए स्वच्या है के स्वारा आदित और कंबाईसी पंजीवृत/अवस्तव नहीं करवाया है, कृप्या निमानिविदेश स्वपूर्ति के अनुराहण कर्म है के स्वारा आदित और केवाईसी पंजीवृत/अवस्तव नहीं करवाया है, कृप्या निमानिविदेश

स्मीतिक अपने डीमैट खाते में विवरण, आपके संबंधित डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रि के अनुसार, पंजीकृत / अद्यतन करवाएं।

के अनुसार, पंजीवात / जावान करवाएं।
निर्माण प्रथम आईएराकरा-1 में विकल्प लेवे पार्कुतर शंवर सेवें/ एपजे/ एपजे
निर्माण प्रथम आईएराकरा-1 में विकल्प लेवे पार्कुतर शंवर सेवें/ एपजे/ एपजे
निर्माणि के आपन्य अंदर्ग में पार्कित जान स्पन्न स्वतानिक में प्रयोग के स्वतानिक स्

| Forms.asgs.re परायस्थ है।

जायस्थ अधिनियः स्वारं (आवास्य अधिनियाः) के प्रावधानी के निक्यानी में, सदस्यों के स्वरत्यों का स्वार्थ अधिनियः कर वीचा के निक्यानी के नार्यों के स्वार्थ के स्वार्थ कर वीचा के निक्यानी के पूर स्वार्थ के निक्यार्थित हों।

इत्यान स्वार्थ कर के स्वार्थ कर वीचा के निक्यार्थ कर करतीं की के देश कर के अध्यान के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वार्थ

तिरिक्त विवरण के लिए, कृपया कम्पनी की वेबसाइट <u>https://investor.indiamart.com</u> orporateActions.aspx पर उपलब्ध लागांश वितरण के कराधान पर एफएक्यू ज देखें।

वास्ते इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड हस्ता./-मनोज मार्गव युप जनरल काउन्सिल कम्पनी सचिव तथा अनुपालनाधिकारी गुप जनरत कम्पनी सचिव तथा अनुप